

	<p><b>आयुक्त का कार्यालय, सीमा शुल्क (निवारक), जामनगर</b>  Office of the Commissioner of Customs (Preventive), Jamnagar  "सीमा शुल्क भवन" जामनगर - राजकोट हाईवे, विक्टोरिया ब्रिज के पास जामनगर -  361001  "SEEMA SHULK BHAVAN" Jamnagar-Rajkot Highway, Near Victoria Bridge  Jamnagar- 361001  Phone: (0288) 2772710 Fax: (0288) 2772702 Email: vig-custjmr@nic.in</p>
---	--

F.No. GEN/VIG/MISC/50/2025

Date: 15.01.2026

**स्थापना आदेश सं./Establishment Order No.: 03/2026**

**दिनांक /Date:- 15.01.2026**

**अधीक्षक एवं निरीक्षक के ग्रेड में स्थानान्तरण एवं नियुक्ति**  
**Transfer and Posting in the grade of Superintendent and Inspector**

The transfer/rotation in respect of the following officers is hereby ordered with immediate effect and until further orders:-

Sr. No	Name of the officer (S/Shri)	Designation	From	To
1.	JETHVA PARESH P.	SUPERINTENDENT	CH PIPAVAV(S)	CD PORBANDAR(NS)
2.	JASRAJ KHATRI	INSPECTOR	STF/TRC SECTION, HQ, CC(P), JAMNAGAR	STF/TRC SECTION, HQ, CC(P), JAMNAGAR with additional Charge of DISPOSAL CELL, HQ, CC(P), JAMNAGAR

2. Shri Jethva Paresh P., Superintendent will not be eligible for any TA/Joining Time etc. as he has been transferred on his own request.

3. All the Officers should be relieved **on or before 23.01.2026** to enable them to join their new place of posting. Copy of relieving and joining report may be submitted to vigilance section Customs (Preventive) Commissionerate, Jamnagar at email [vig-custjmr@nic.in](mailto:vig-custjmr@nic.in) promptly.

4. The Supervisory Officer is directed to ensure that the officer relieving should give/take proper HANDING OVER/TAKING OVER NOTE of the relevant charge with details of files before relieving.

5. The aforesaid officers are directed that the files/receipts/daks lying in their e-office must be transferred to the LINK OFFICER/SUPERVISORY OFFICER. The time bound/ urgent/ important matters, if any, may be

communicated specifically to the link officer or the Supervisory Officer in the handing/taking over note.

6. The Supervisory officer will inform the details of C.L. and R.H. availed by the above relieved officers directly to the concerned Division/CH/Sections.

7. This Order is issued with the approval of the Commissioner, Customs (Preventive), Jamnagar.

  
(अमित कुमार सिंह)  
(Amit Kumar Singh)  
अपर आयुक्त (का. एवं सत.)  
Additional Commissioner (P&V)

Copy to:

1. PA to the Commissioner of Customs (Preventive), Jamnagar.
2. All Additional Commissioner, Customs (Preventive) Commissionerate, Jamnagar.
3. All Deputy / Assistant Commissioners Customs (Preventive) Commissionerate, Jamnagar.
4. The Superintendent (System), Customs (Preventive) Commissionerate, Jamnagar for mapping/de-mapping of the officers in e-office as per this establishment order.
5. The Superintendent, Administrative Section, Customs (Preventive) Commissionerate, Jamnagar for necessary IN/OUT Entry in Biometric Attendance System.
6. The CAO/PAO/Establishment Section, Customs (Preventive) Commissionerate, Jamnagar.
7. Individual/Guard File/Notice Board.